



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 1977/श्रावण 17, 1899

No. 141]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 1977/SRAVANA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th August 1977

SUBJECT—*Import Policy for April 1977—March 1978—Amendments of*

No. 59-ITC(PN)/77—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Volume I) for the period April 1977—March 1978.

2. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April 1977—March 1978 :

Page No. of the Policy Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
(1)	(2)	(3)
8	Section I, Para 55, last sentence, after existing sub-para (iii).	The following word may be deemed to have been inserted after the words "wire cloth" and before the word "etc." "rayon spinning pots."

(1)	(2)	(3)
25 & 118	Section II, heading No. 09·01/10, column 2, sub-heading (4) and S. No. 26 in Appendix 2, column 2.	The description of this item may be deemed to have been amended as under "CASSIA/CINNAMON"
53	Section II, Heading No. 75·02 column 3, Remark (6).	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following : "AU for import of electric resistance wire only thinner than 30 G in Ni-chrome and thinner than 40G and thicker than 20G and ferrous base."
53 & 111	Section II, Heading No. 75·04/06, column 3 and Appendix 1, Part VI.	(1) The following additional remark (3) may be deemed to have been inserted "(3) Import of nickel oxide sinter is allowed under OGL. Please see Appendix 1 of this Book" (2) The following item may be deemed to have been inserted at S. No. (41) : "Nickel Oxide Sinter."
84	Section III, Group 'C'	The following item may be deemed to have been inserted at S. No 39A : "39A Vitamin D-3"
107	Section V, Appendix 1, Part IV, Item No. 22.	This item may be deemed to have been deleted
108, 202 & 205	Section V, Appendix 1, Part IV, S No 108, Appendix 19, List I, S No. 108 and List II.	The item "Kwolin light pharmacopoeial grade" may be deemed to have been deleted from Part IV of Appendix 1 and List I of Appendix 19, and included at S. No. 63A in List II of Appendix 19.
109	Section V, Appendix 1, Part IV.	The following item may be deemed to have been inserted as an additional item at S No 219A.— "219A. In Thyroxine Sodium"
110	Section V, Appendix 1, Part V.	The following additional item may be deemed to have been inserted at S. No. 20A :— "20A Doxyrubicin Hydrochloride Injections"
119	Section V, Appendix 3, Item No. 23.	The description of this item may be deemed to have been revised as under : "Hydraulic High Precision internal grinding machine, rigid construction capacity above 100mm bore dia."
189	Section V, Appendix 15, Item No. 57	The item may be deemed to have been deleted.
202	Section V, Appendix 19, Item No. 64	The description of this item may be deemed to have been amended as under : "Doxyrubicin Hydrochloride and its injections"
204	Section V, Appendix 19, List I, Item No. 210	This item may be deemed to have been deleted
206	Section V, Appendix 19, List III, Item No. 8.	The description of this item may be deemed to have been amended as under "Clomidine Hydrochloride"

(1)	(2)	(3)
255	Section V, Appendix 28, List VI, Part A, Item Nos. 7, 15 & 16.	The description of these items may be deemed to have been amended as under: "7. Chlorpyrifos (DURSBAN) 15. DD/Telone 16. DBCP/FUMAZONE
255	Section V, Appendix 28, List VI, Part A, Item No. 14.	This item may be deemed to have been deleted.
297	Section V, Appendix 38, Item No. 4, in the list of components allowed to actual users engaged in the manufacture of value type radio receivers, transistor radio receivers, including low priced radio receivers.	The following items appearing therein may be deemed to have been deleted : "1. Litz Wire 2. Micro-crystalline Wax "
298	Section V, Appendix 38, Item No. 6 in the list of components allowed to actual users engaged in the manufacture of mono-amplifiers including public address.	The item "Mu-metal laminations" appearing therein may be deemed to have been deleted
298	Section V, Appendix 38, Item No. 5, in list of components allowed for the manufacture of AM/FM radio receivers.	The item "Litz Wire" appearing therein may be deemed to have been deleted.
299	Section V, Appendix 38, item No. 6, list of components allowed to actual users engaged in the manufacture of stereo amplifiers.	The item "Led Lamps" may be deemed to have been deleted.
299	Section V, Appendix 38, Item No. 2, in the list of components allowed to actual users engaged in the manufacture of tape recorders/car cassette players	The items "diaphragm" and "Mu-metal laminations" appearing therein may be deemed to have been deleted.
300	Section V, Appendix 38, Item Nos. 7 & 8, in list of components allowed to actual users engaged in the manufacture of car radios.	The item "Mu-metal laminations" appearing in item No. 7 & item 8 i.e., "Feed-through ceramic capacitors" may be deemed to have been deleted.
301	Section V, Appendix 38, item Nos. 1 & 2 in the list of components allowed for the manufacture of Micro-phones.	These items may be deemed to have been deleted
301	Section V, Appendix 38, item Nos. 3 & 4 in the list of components allowed for the manufacture of hearing aids.	(1) These items may be deemed to have been deleted. (2) The following new item may be deemed to have been inserted as item No. 6 — "6. U-U & U-I Ferrite cores for BHT transformer50%"
304	Section V, Appendix 28, item No. 6 in the list of components allowed for the manufacture of TV tunners.	This item may be deemed to have been deleted.
305	Section V, Appendix 38, item No. 8 in the list of components allowed for the manufacture of DC Micro motors and Tape Deck mechanism.	The item "Beryllium copper strips" appearing therein may be deemed to have been deleted.

(1)

(2)

(3)

310 Section V, Appendix 39
312

The following items allowed for the manufacture of various electronic components as mentioned therein may be deemed to have been deleted:

1. Brass tubes thinner than 32 SWG dia ranging from 2mm to 13mm.
2. Beryllium copper strips.
3. Weather proof voice coil paper.
4. Opanol (Isobutylene Polymers).
5. Benzilidine Acetone.
6. Polymeth Acrylic Resins.
7. Polycarbonate moulding powder.
8. Dapabs moulding powder.
9. Litz Wire.
10. Micro Crystalline Wax.
11. Plain aluminium foils strips 99.9 per cent and above purity.
12. Metallized or plain film polyester/poly carbonate polypropylene/Teflon/polyethylene.
13. Polysterene film.
14. Condensor paper/condensor tissue paper.
15. Aluminium wire 99.9% and above purity.
16. Ethylene Glycol.
17. Pulp for manufacture of loud-speaker cones.

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1977

विषय : अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात नीति संशोधन ।

सं० 59-आइ०टी०सी०(पी०एन) '77—अप्रैल 1977—मार्च, 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 1) में यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 निम्नलिखित संशोधन अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० 1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं—

नीति पुस्तक (वा० 1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन के ब्यौरे
1	2	3
8	खण्ड-1, कड़िका 55 में वर्तमान उप-कड़िका (3) के बाद अन्तिम वाक्य	निम्नलिखित शब्द “बायर कपड़ा” शब्दों के बाद और “आदि” शब्द से पूर्व जोड़े गए समझे जाएं :— “, रेयन स्पर्निंग पोद्स”
25 एवं 118	खंड 2, शीर्षक सं० 09'0'10, कालम 2, उपशीर्षक (4) एवं परिशिष्ट 2 में कालम 2 की क्रम सं० 26	इस मद के विवरण को इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— “केसिया/सिनामोन”
53	खंड-2, शीर्षक सं० 75'02, कालम 3, टिप्पणी (6)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— “केवल नाइक्रोम में 30 जी से पतले और 40 जी से पतले एवं 20 जी से मोटे विद्युत प्रतिरोधी तार एवं फेरस बेस के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।,”
53 एवं 111	खंड-2 शीर्षक सं० 75'04'06, कालम 3 एवं परिशिष्ट 1, भाग-6	(1) निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी (3) को जोड़ा गया समझा जाए :— “(3) निकल आक्साइड सिल्टर का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमेय है । कृपया इस पुस्तक का परिशिष्ट-1 देखें ।”

1	2	3
		(2) निम्नलिखित मध को क्रम सं० (41) पर जोड़ा गया समझा जाए :— “निकल आक्साइड सिल्टर”
84	खंड-3, वर्ग 'ग'	निम्नलिखित मधें क्रम सं० 39 ए पर जोड़ी गई समझी जाएं :— “39ए विटामिन डी-3”
107	खंड-5, परिशिष्ट-1, भाग-4, मद सं० 22	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
108,	खंड 5, परिशिष्ट-1, भाग-4, क्रम सं०	मद “केलिन लाइट फार्मेकोपोयल ग्रेड” को
202	108, परिशिष्ट 19, सूची 1, क्रम सं० 108	परिशिष्ट-1 के भाग 4 से और परिशिष्ट
एव	एव सूची 2	19 की सूची 1 से हटाया गया और
205		परिशिष्ट 19 की सूची 2 की क्रम सं० 63 ए में शामिल किया गया समझा जाए ।
109	खंड-5, परिशिष्ट-1, भाग-4	निम्नलिखित मद को क्रम सं० 219 ए पर एक अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ा गया समझा जाए :— “219 ए थाइरोक्साइन सोडियम”
110	खंड-5, परिशिष्ट-1, भाग-5	निम्नलिखित अतिरिक्त मद को क्रम सं० 20 ए पर जोड़ा गया समझा जाए :— “20ए डाक्सीरुबीसिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन”
119	खंड-5, परिशिष्ट-3 मद सं० 23	इस मद के विवरण को इस प्रकार परिशोधित किया गया समझा जाए :— “हाइड्रालिक हार्ड प्रिसाइजन इन्टर्नल मशीन, सख्त बनावट-क्षमता 100 एम एम बोर डायामेटर से अधिक ।”
189	खंड-5, परिशिष्ट 15, मद सं० 57	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।
202	खंड-5, परिशिष्ट 19, मद सं० 64	इस मद के वर्तमान विवरण को इस प्रकार संशोधित किया जाए :— “डाक्सीरुबीसिन हाइड्रोक्लोराइड और इसके इंजेक्शन ।”

1	2	3
204	खंड-5, परिशिष्ट-19 सूची-1, मद सं० 210	इस मद को हटाया गया समझा जाए।
206	खंड-5, परिशिष्ट-19, सूची-3, मद सं० 8	इस मद के विवरण को इस प्रकार संशोधित किया समझा जाए — “क्लोनिडाइन हाइड्रोक्लोराइड।”
255	खंड-5, परिशिष्ट-28, सूची-6, भाग-ए, मद सं० 7, 15 एवं 16	इन मदों के विवरण को इस प्रकार संशोधित किया गया समझा जाए :— “7 क्लोरपिरिफोस (डर्सबन) 15 डी डी/टिलोन 16 डी बी सी पी, फमेजोन”
255	खण्ड 5, परिशिष्ट 28, सूची 6, भाग ए, मद सं० 14	इस मद को हटाया गया समझा जाए।
297	खण्ड 5, परिशिष्ट 38 ब्लू टाइप रेडियो रिसेवर्स, ट्रांजिस्टर रेडियो रिसेवर्स जिन में कम मूल्य वाले रिसेवर्स शामिल हैं के विनिर्माण में लगे हुए, वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 4	इसमें दर्शाई गई निम्नलिखित मदों को हटाया गया समझा जाए :— “1. लिटस तार 2. माइक्रो-क्रिस्टेलाइन मोम”
298	खण्ड 5, परिशिष्ट 38, माइनो-प्रवर्धक जिसमें सार्वजनिक एड्रेस शामिल हैं के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 6	इसमें दर्शाई गई “न्यू मेटल लेमिनेशन” मद को हटाया गया समझा जाए।
298	खण्ड 5, परिशिष्ट 38 एएम/एफ एम रेडियो रिसेवर्स के विनिर्माण के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 5	इस मद में दर्शाई गई मद—लिटम वायर को हटाया गया समझा जाए।
299	खंड 5, परिशिष्ट 38, टेप रिकार्ड्स कार केस्मेट्ट जेयर्स के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 2	इसमें डायफ्रेम और न्यू-मेटल लेमिनेशन मदों को हटाया गया समझा जाए।
300	खण्ड 5, परिशिष्ट 38, कार रेडियो के विनिर्माण में लगे हुए वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 7 एवं 8	मद सं० 7 एवं 8 अर्थात् “सिरेमिक कैपेसिटर्स के माध्यम से त्बुराक” में दर्शाई गई मद “न्यू-मेटल लेमिनेशन” को हटाया गया समझा जाए।

1	2	3
301	खण्ड 5, परिशिष्ट 38 माइक्रोफोन्स के विनिर्माण के लिए अनुमेय संघटकों की सूची में मद सं० 1 एवं 2	इन मदों को हटाया गया समझा जाए।
301	खण्ड 5, परिशिष्ट 38 श्रवण-महाय के विनिर्माण के लिए स्वीकृत संघटकों की सूची में मद सं० 3 एवं 4	इन मदों को हटाया गया समझा जाए।
302 एवं 303	खण्ड 5, परिशिष्ट 38, कड़िका 24, मद सं० 1 (1) (ए), (बी) एवं (सी)	(1) इन मदों को हटाया गया समझा जाए। (2) निम्नलिखित नई मद को मद सं० 6 के रूप में जोड़ा गया समझा जाए :— “6 यू-यू एवं यू-1 ई एच टी ट्रांसफार्मर्स के लिए फिनाइट कोर्स 50 प्रतिशत”
304	खण्ड 5, परिशिष्ट 38, टी० बी० टनर्स के विनिर्माण के लिए स्वीकृत संघटकों की सूची में मद सं० 6	इस मद को हटाया गया समझा जाए।
305	खण्ड 5, परिशिष्ट 38, डी सी माइक्रो मोटर्स एवं टेप डेक मैकेनिज्म के विनिर्माण के लिए स्वीकृत संघटकों की सूची में मद सं० 8	इसमें दर्शाई गई मद “बेरिलियम ताम्बा स्ट्रिप्स” को हटाया गया समझा जाए।
310-312	खण्ड 5, परिशिष्ट 39	इसमें यथाउल्लिखित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स संघटकों के विनिर्माण के लिए स्वीकृत निम्नलिखित मदों को हटाया गया समझा जाए :— 1. 2 एम एम से 13 एम एम की रेंज वाली 32 एस डब्ल्यू जी डायो से पतली पीतल की ट्यूबें। 2. बेरिलियम ताम्बा स्ट्रिप्स। 3. वर्षारोक ध्वनि कायल कागज 4. ओपेनल (आइसोब्यूटिलीन पोलिमर्स) 5. बेजिलेडीन एसिटोन 6. पालिमिथ एक्रिलिक रेजिन्स

1

2

3

7. पालिकाबोनेट मोल्डिंग चूर्ण
8. डापक्स मोल्डिंग चूर्ण
9. लिटस तार
10. मार्क्रोक्रिस्टेलीन मोम
11. 99.9 प्रतिशत और इसमें अधिक शुद्धता वाले सादे एल्यूमीनियम फायल स्टिप्स
12. मेटेलाइड ड अथवा प्लेन फिल्म पालिएस्टर / पालिकाबोनेट / पालि-प्रोपेलीन/टेल्पन पालिथिलीन
13. पालिएस्ट्रीन फिल्म
14. कन्डेन्सर कागज कन्डेन्सर टिशू कागज
15. 99.9 प्रतिशत और इसमें अधिक शुद्धता वाली एल्यूमीनियम तार
16. एथिलीन ग्लाइकोल
17. लाउडस्पीकर कोन्स के विनिर्माण के लिए लुग्धी

ए० एस० गिल,

मुख्य नियन्त्रक, आयात निर्यात ।

सहा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI 1977

